

37



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2006/वीच 8, 1928

No. 1541]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2006/PAUSA 8, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2167(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसकी पर्याप्त उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ), तारीख 3 जनवरी, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (II) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 270.000 कि.मी. से 332.600 कि.मी. (मन्नूची-अलूवा सेक्शन) तक के धूखण्ड का चौड़ाई, यदि कोई है, सहित निर्माण (चौड़ा करने) करने के लिए उस अधिसूचना से उपाखंड अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 11 मार्च, 2006 को "दि हिन्दू" और तारीख 12 मार्च, 2006 को "मातृभूमि" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट द दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 क 270.000 कि. मी. से 316.700 कि. मी. तक ( मन्थी-अलुवा सेक्शन ) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	उप मंडल संख्या	नया उप मंडल संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामी / हितधारक व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	एर्नाकुलम	अलुवा	कारुकुट्टी	56	1 भाग	1/2/2029	निजी	शुष्क	113	देवासीकुट्टी
				56	2 भाग	2/1/1930	निजी	शुष्क	17	पप्पु और अन्य
						2/2/1931	निजी	शुष्क	26	संजीव कुमार
						2/9/1932	निजी	शुष्क	98	बाबू
				56	3 भाग	3/33	निजी	शुष्क	67	कलेटस
				56	5 भाग	5/34	निजी	शुष्क	73	विकार बासलेहम चर्च
				56	6 भाग	6/35	निजी	शुष्क	148	देवासी
				56	7 भाग	7-1	निजी	शुष्क	1	पी. डी. फ्रेंसिस
						7-2/36	निजी	शुष्क	25	पी. डी. फ्रेंसिस
				56	16 भाग	16/37	सरकारी	शुष्क	15	स्थानीय संस्था सड़क
				56	17 भाग	17-2/38	निजी	शुष्क	57	एम ओ. पप्पु और मायजू
				56	18 भाग	18/39	निजी	शुष्क	60	एथोनीकुट्टी
				56	19 भाग	19-3/40	निजी	शुष्क	162	फ्र. अगास्तिन
						19-4/41	निजी	शुष्क	1	फ्र. अगास्तिन
						19-5/42	निजी	शुष्क	6	रोजी चाको
				56	20 भाग	20/43	निजी	शुष्क	78	पी. वी. चाको
				56	22 भाग	22/44	निजी	शुष्क	36	कोचप्पन्न देवासी
				56	23 भाग	23-1/45	निजी	शुष्क	1	देवासी
						23-2/46	निजी	शुष्क	38	सिवन
						23/3/47	निजी	शुष्क	3	स्टीफन
				56		24/24	निजी	शुष्क	19	प्राथीश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56	26 भाग	26/1/48	निजी	शुष्क	17	मरियमकुटटी, जोस और अन्य लिगल हेयरस आफ मरियमकुटटी देवासी
						26/2/49	निजी	शुष्क	22	मरियमकुटटी, जोस और अन्य लिगल हेयरस आफ मरियमकुटटी देवासी
				56	27 भाग	27/50	निजी	शुष्क	72	जोसफ
				59		1/12ए	निजी	शुष्क	286	पी. पी. थामस और अन्य
						1/12ड	निजी	शुष्क	29	पी. पी. थामस और अन्य
						1/12ह	निजी	शुष्क	450	पी. पी. थामस
				59	11	11	निजी	शुष्क	27	पालस पुत्र लोनाप्पन
				64	4	4	निजी	शुष्क	262	लोनाप्पन स्व. इसलिए जोनसत
				64	16	16/43	सरकारी	शुष्क	225	सेल्स टेक्स चैक-पोस्ट
				64	17	17/44	निजी	शुष्क	453	मेरी
				64	19	19-4/45	निजी	शुष्क	15	जार्ज
						19-5/46	निजी	शुष्क	64	जार्ज
				64	20	20-1/47	निजी	शुष्क	42	रोज मेरी
						20/2	निजी	शुष्क	88	जाय
						20/3	निजी	शुष्क	3	जाय और अन्य
				64	21	21/48	निजी	शुष्क	170	जेक्ब
				64	22	22/49	निजी	शुष्क	8	कोरथ
				64	24	24/51	निजी	शुष्क	374	एल्सी, जानीकुटटी और अन्य
				64	33	33/52	सरकारी	शुष्क	216	कृषिभवन
				64	34	34/53	सरकारी	शुष्क	167	केनाल और सड़क
				69	3	3/1/27	निजी	शुष्क	732	मथाचन
				69	3	3/4/28	निजी	नम	10	मथाचन
				69	13	13-1/29	निजी	नम	177	के.ए. मोहम्मद
				69	14	14/30	निजी	शुष्क	10	पोली, जेक्ब, जोजी, जीजो
						14/3	निजी	शुष्क	105	पोली, जेक्ब, जोजी, जीजो
						14/4/31	निजी	शुष्क	39	पोली, जेक्ब, जोजी, जीजो
				69	16	16/32	सरकारी	शुष्क	56	सड़क (स्थानीय संस्था)
				70	1	1/1/2017	निजी	शुष्क	600	शीबु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				70	5 भाग	5/1/2018	निजी	शुष्क	531	पालस पुत्र लोनाप्पन
						5/2/2019	निजी	शुष्क	52	थोमस और अन्य
						5/3	निजी	शुष्क	325	थोमस
				70	6 भाग	6/2/20	निजी	शुष्क	329	थोमस
				70	12 भाग	12-2/22	निजी	शुष्क	115	थोमस
				70	14 भाग	14-1/23	निजी	शुष्क	53	स्टीफन
						14-2/24	निजी	शुष्क	68	थोमस
				70	16 भाग	16-2/25	निजी	शुष्क	6	थोमस
				73	17 भाग	17/20	सरकारी	शुष्क	27	स्थानीय संस्था
				74	12	12-1/16	निजी	शुष्क	11	जार्ज
						12-2/17	निजी	शुष्क	24	पोली
						12/3/18	निजी	शुष्क	117	टी. ए. पुरुशोत्तमन नायक
						12/4	निजी	शुष्क	202	जार्ज
				107	भाग	1-2	सरकारी	शुष्क	88	सड़क स्थानीय संस्था
				108	1 भाग	1/18	निजी	शुष्क	288	जोनसन और धीसीयामा
				108	16 भाग	16/21	निजी	शुष्क	362	टी. ओ. जार्ज
				109	1 भाग	1-1/26	निजी	शुष्क	255	वरगीस
						1-2/27	निजी	शुष्क	19	मेरी वरगीस
						1-3/28	निजी	शुष्क	19	1) वरगीस (2) अलियास
						1-3/29	निजी	शुष्क	3	1) वरगीस (2) ब
						1-4/30	निजी	शुष्क	88	1) वरगीस (2) अलियास
						1-5/31	निजी	शुष्क	187	1) वरगीस (2) अलियास
						1-6	निजी	शुष्क	6	राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह
						1-7/32	निजी	शुष्क	103	टोमी और पत्नी सेलिन
						1-8/33	निजी	शुष्क	34	वरगीस
						1-9/34	निजी	शुष्क	33	एल्डो
						1-11	निजी	शुष्क	56	वरगीस
						1-12	निजी	शुष्क	22	एल्डो
						1-13/35	निजी	शुष्क	106	जोर्ज
				109	7 भाग	7-1/36	निजी	शुष्क	129	ए. एस. भारगवयामा
						7-2/37	निजी	शुष्क	35	रामाचन्द्रन नायर
				109	18 भाग	18/38	सरकारी	शुष्क	89	स्थानीय संस्था
				109	21 भाग	21/39	निजी	शुष्क	136	जोनसन और अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				111	1 भाग	1-32	निजी	शुष्क	270	विकार, से. जेवियर चर्च
				111	2 भाग	2-1/33	निजी	शुष्क	200	पी. जे. जोन, एलिकुट्टी जोन और अलायस
						2-1/34	निजी	शुष्क	2	रोजाकुट्टी और अन्य
						2-2/35	निजी	शुष्क	16	इलियास
				111	3 भाग	3-1	निजी	शुष्क	39	थामस
						3-2	निजी	शुष्क	33	अलायस
				111	4	/4	निजी	शुष्क	140	1. राजू
										2. जाय
										3. रोजाकुट्टी और अन्य
				111	5 भाग	5-36	निजी	शुष्क	14	1. राजू
										2. जाय
										3. रोजाकुट्टी और अन्य
				111	6 भाग	6-37	निजी	शुष्क	326	1. डा. पी. पी. जोस
										2. श्रीमति थंकामा
				111	14 भाग	14/38	निजी	शुष्क	460	अब्राहिम और मेरी
				111	15 भाग	15/39	निजी	शुष्क	216	अब्राहिम और मेरी
				111	27 भाग	27/40	निजी	शुष्क	80	मेनेजर स्टार जेसिस हाई स्कूल
				112	1 भाग	1-1/25	निजी	शुष्क	143	टेनी जोस
						1-2/26	निजी	शुष्क	122	टेनी जोस
						1-3/27	निजी	शुष्क	11	1. वरगीस
										2. डेविड
				112	2 भाग	2-3/28	निजी	शुष्क	1	विकार, से. जेवियर चर्च
						2-1/38	निजी	शुष्क	3	विकार, से. जेवियर चर्च
				112	3 भाग	3-1	निजी	शुष्क	138	पी. टी. जोसफ
						3-3	निजी	नम	122	जेन्सी
				112	4 भाग	4-30	निजी	शुष्क	128	मेरी चकाप्पन
				112	5	5/5	निजी	शुष्क	40	जोनी
				112	6	6/1	निजी	शुष्क	119	विकार, से. जेवियर चर्च और अन्य
						6/2	निजी	शुष्क	71	सीजो एंथोनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				112	7 भाग	7-2/31	निजी	शुष्क	52	मेरी जॉन वरगोस
						7-3	निजी	शुष्क	26	वेरानाकी
						7-4/32	निजी	शुष्क	1	के. पी. थामस
				112	18 भाग	18/33	सरकारी	शुष्क	108	सड़क पी. डबल्यु डी.
				112	20 भाग	20/20	निजी	शुष्क	40	पीटर
				112	23	23/34	निजी	शुष्क	143	अब्राहिम
				112	24	24/35	निजी	शुष्क	49	मेरी और अन्य
				113	1 भाग	1/16	सरकारी	शुष्क	43	सड़क स्थानीय संस्था
				113	7 भाग	7/18	सरकारी	शुष्क	33	पाथवे, स्थानीय संस्था
				113	15 भाग	15/21	निजी	शुष्क	77	वी. सी. जोस
				115	1 भाग	1-1/16	निजी	शुष्क	35	जार्ज जोसफ और अन्य
						1-2/11	निजी	शुष्क	209	साली मेरी
						1-7/12	निजी	शुष्क	1	जार्ज जोसफ और अन्य
				115	2 भाग	2-1	निजी	शुष्क	4	जार्ज जोसफ और अन्य
						2-2/13	निजी	शुष्क	191	जार्ज जोसफ
				115	3 भाग	3-2/14	निजी	शुष्क	439	1. सुरेशबाबू
										2. थामस
										3. प्रथापन
				115	4 भाग	4-15	निजी	शुष्क	355	जोन
				117	5 भाग	5/1/9	निजी	नम	260	प्रयास सुपिरयर क्रिस्ट किंग मोनेस्ट्री
				117	8 भाग	8/1/10	निजी	नम	813	रोजाकुट्टी
						8/2/11	निजी	नम	41	डा. पी. पी. जोस
						8/3/12	निजी	शुष्क	38	1. जाय जोसफ
										2. जेक्ब थराकन
						8/4	निजी	शुष्क	32	1. जाय जोसफ
										2. जेक्ब थराकन
						8/6	निजी	शुष्क	8	सीजो सी. पदायति
						8/7	निजी	नम	8	सीजो सी. पदायति
				118	10 भाग	10/2	निजी	शुष्क	142	जार्ज
						10/3/12	निजी	शुष्क	39	जार्ज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			531	118	11 भाग	11/1/13	निजी	शुष्क	593	जोली. लोनापन
			001			11/1/14	निजी	शुष्क	31	ओसफ देवासी और अन्य
			138			11/2/15	निजी	शुष्क	153	जेसी चेरियन
			871			11/3/16	निजी	शुष्क	285	बाबू लोनापन
			130			11/5/17	निजी	शुष्क	62	अनामकुटली
			811			11/6/18	निजी	शुष्क	63	सीजो सी. पदायति
			17			11/7/19	निजी	शुष्क	60	रोजिली
			51	118	11 भाग	11/10/20	निजी	शुष्क	365	रोजिली वरगीस और अन्य
			73	121	12 भाग	2/1/29	निजी	शुष्क	11	पी. पी. वरगीस और अन्य
			157			2/2/30	निजी	शुष्क	49	जोस
			8			2/3/31	निजी	शुष्क	48	पोली
			811	121	2 भाग	2/4/32	निजी	शुष्क	48	मथाचन
			67			2/5/33	निजी	शुष्क	50	वरगीस
			85			2/6	निजी	शुष्क	87	1. पी. एल. पोलाचन
			85							2. पी. पी. वरगीस
			05	121	3 भाग	3/34	निजी	शुष्क	365	1. निर्मला और अन्य
			00							2. पी. जे. जोन
			28	121	14 भाग	14/37	सरकारी	शुष्क	57	सड़क स्थानीय संस्था
			62	121	24	24-44	निजी	शुष्क	53	वरगीस
			850	121	25	25-45	निजी	शुष्क	40	थामस
			101	125	5 भाग	5/1/20	निजी	शुष्क	205	के. आर. इलेक्ट्रीकलस प्राईवेट लि. पी डेनी
			573	125	8 भाग	8/1/22	निजी	शुष्क	1	वरगीस
			01			8/2/23	निजी	शुष्क	130	अब्दुल रजाकंद अन्य
			813			8/3/24	निजी	शुष्क	114	वरगीस
			821			8/5/25	निजी	शुष्क	114	वरगीस
			41			8/6/26	निजी	शुष्क	38	वरगीस
			001			8/7/27	निजी	शुष्क	114	वरगीस
			7			8/8/28	निजी	शुष्क	114	वरगीस
			825	125	9 भाग	9/29	निजी	शुष्क	520	अनाम मावेली
			815	125	10 भाग	10/30	निजी	शुष्क	387	पोली
			000	125	13 भाग	13/31	निजी	नम	572	पी. वी. चाको
				214	1 भाग	1/20	निजी	शुष्क	221	जिम जोस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				214	2 भाग	2/21	निजी	शुष्क	122	जिम जोस
				214	7 भाग	7/22	निजी	शुष्क	190	के. पी. वरगीस और अन्य
				214	8 भाग	8/3/23	निजी	शुष्क	221	जार्ज जोसफ
				214	10 भाग	10/24	निजी	शुष्क	316	सुलेखा
				214	11 भाग	11/1/25	निजी	शुष्क	88	चाकोचन
						11/2/26	निजी	शुष्क	116	टेनी थामस
						11/4/27	निजी	शुष्क	11	टेनी थामस और अन्य
				214	13 भाग	13/29	निजी	शुष्क	22	जोन और अन्य
				214	15 भाग	15/30	निजी	शुष्क	132	जोस और पत्नी तेरेसीना
				214	17 भाग	17-1/31	निजी	शुष्क	83	जोसू, साजी, बाइजु
						17-2/32	निजी	शुष्क	171	जेम्स
				220	2 भाग	2/1/11	निजी	शुष्क	8	देवासीकुटटी और अन्य
						2/2	निजी	शुष्क	148	पी. के. विजयन
						2/3/12	निजी	शुष्क	79	सेम
						2/4/13	निजी	शुष्क	46	पालस
						2/5/14	निजी	शुष्क	49	थामस
						2/6/15	निजी	शुष्क	90	के. डी. जोसफ
						2/7/16	निजी	शुष्क	85	मैथ्यू
						2/8/17	निजी	शुष्क	59	देवासीकुटटी
				220	3 भाग	3/18	निजी	शुष्क	649	वरोनिका और अन्य
				220	6 भाग	6/21	निजी	शुष्क	407	एलसी और अन्य
				220	7 भाग	7/2/22	निजी	शुष्क	172	पालस
						7/3/23	निजी	शुष्क	40	देवासीकुटटी
						7/4/24	निजी	शुष्क	215	रेजी
				221	भाग	1-2	सरकारी	नम	438	केनाल और केनाल सड़क
				222	7 भाग	7/1	निजी	शुष्क	14	थामस और अन्य
				222	7 भाग	7/2/22	निजी	शुष्क	160	बेनी, जोस और मार्टिन
				222	8 भाग	8/1/23	निजी	शुष्क	3	सीजो थोमस
						8/2/24	निजी	शुष्क	224	बेनी
				222	8 भाग	8/4/25	निजी	शुष्क	233	पोल थोमस
				222	8 भाग	8/5/26	निजी	शुष्क	350	सीजो थोमस



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				222	9 भाग	9/1/27	निजी	शुष्क	98	एम. वी. पालस
						9/2/28	निजी	शुष्क	185	एम. वी. जोस
						9/3/29	निजी	शुष्क	31	एम. वी. पालस
				226	4 भाग	4/2/17	निजी	शुष्क	80	जोशी
						4/3/18	निजी	शुष्क	39	राजामा
						4/4/19	निजी	शुष्क	88	एम. के. गोपी
						4/5/20	निजी	शुष्क	78	एम के बाबु
				226	5 भाग	5/21	सरकारी	नम	198	केनाल इरिगेशन
				226	8 भाग	8/22	निजी	शुष्क	8	जोशी और अन्य
						8/2/23	निजी	शुष्क	370	जोशी
						8/13/24	निजी	शुष्क	258	एनी. जोसफ और अन्य
				240	1 भाग	1-1/11	निजी	शुष्क	154	चैलापन
						1-2/12	निजी	शुष्क	48	हेलन
						1-3/13	निजी	शुष्क	82	मरसी
						1-4/14	निजी	शुष्क	238	रेजी जोन
						1-6	निजी	शुष्क	230	जोन
						1-7/15	निजी	शुष्क	40	जोन
						1-8	निजी	शुष्क	178	जोन
						1-9/16	निजी	शुष्क	89	पाली
						1-10	निजी	शुष्क	250	के. जे. बरलीस
						1-11/17	निजी	शुष्क	185	जोन
						1-12/18	निजी	शुष्क	122	चैलापन
						1-13/19	निजी	शुष्क	44	जोन
						1-15/20	निजी	शुष्क	114	शिवु
				240	8	6-2/21	निजी	शुष्क	23	सी. पी. जेम्स
						6-4/22	निजी	शुष्क	1	1.सी. पी. जेम्स
										2. जाय
						6-5/23	निजी	शुष्क	70	स्टीफन
						6-6/24	निजी	शुष्क	33	प्रेम स्टीफन
				240	7 भाग	7-1	निजी	शुष्क	11	टी. ए. करीम
						7-2/25	निजी	शुष्क	400	टी. ए. करीम
				240	8	8-26	निजी	शुष्क	150	दिव्या और शनोई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				240	8 भाग	9-2	निजी	शुष्क	56	सी. पी. जेम्स
						9-3	निजी	शुष्क	131	स्टीफन और अन्य
						9-4/27	निजी	शुष्क	174	प्रेम स्टीफन
						9-5/28	निजी	शुष्क	55	प्रेम स्टीफन
						9-6/29	निजी	शुष्क	112	थामस स्टीफन
				240	10 भाग	10-30	निजी	शुष्क	23	दिव्या और शनोई
				241	1	1-1	निजी	शुष्क	23	साइमन
						1-2	निजी	शुष्क	23	जोनसन
						1-3	निजी	शुष्क	22	अलायस
				241	2	2-15	निजी	शुष्क	87	वरगीस
				241	3 भाग	3-1/16	निजी	शुष्क	3	मेरी
						3-1/17	निजी	शुष्क	336	मेरी
						3-2/18	निजी	शुष्क	1	वरगीस
						3-3	निजी	शुष्क	7	जोनसन
						3-4/19	निजी	शुष्क	6	अलायस
						3-5/20	निजी	शुष्क	5	साइमन
				241	3	13-1/21	निजी	शुष्क	6	वरकी
						241/13-2	निजी	शुष्क	99	वरकी
				241	4	1-2	सरकारी	शुष्क	219	केनाल
				250	1 भाग	1-21	निजी	शुष्क	70	थामस और पत्नी थरेसिया
				250	2 भाग	2-22	निजी	शुष्क	260	वालसा जेक्ब
				250	3 भाग	3-23	निजी	शुष्क	306	वी. ए. प्रभाकरन
				250	4 भाग	4-24	निजी	शुष्क	118	नाइथी और अन्य
						4-25	निजी	शुष्क	100	नाइथी और अन्य
				250	11 भाग	11/1-26	निजी	शुष्क	10	जाय
						11/2-27	निजी	शुष्क	140	जाय
						11/3-28	निजी	शुष्क	138	बेबी
				250	12 भाग	12-29	निजी	शुष्क	474	1. जोसफ और अन्य
										2. पालसन
				250	14 भाग	14-30	निजी	शुष्क	445	पी. वी. चेरियन
				250	15 भाग	15-31	सरकारी	शुष्क	49	सड़क स्थानीय संस्था
				250	17 भाग	17-32	निजी	शुष्क	127	पी. पी. वरकी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				250	19 भाग	19-33	निजी	शुष्क	65	पी. पी. वरकी
				250	20 भाग	20-34	निजी	शुष्क	273	एम. ए. वरगीस और अन्य
				257	3 भाग	3-17	निजी	शुष्क	565	इटैस कुरीयाका
				259	3 भाग	3/1	निजी	शुष्क	34	रीना वरगीस
						3/2/21	निजी	शुष्क	130	रीना वरगीस
				259	10 भाग	10/25	निजी	शुष्क	111	वरकी और अन्य
				259	15 भाग	15-28	निजी	शुष्क	165	अलायस पाल
				259	16 भाग	16/29	निजी	शुष्क	213	विक्टोरिया रोजी
				259	17 भाग	17/30	निजी	शुष्क	152	वरुनो
				259	19	19-31	निजी	शुष्क	136	ए. सै. जार्ज यकोबाया चर्च और
				260	1 भाग	1/14	निजी	शुष्क	214	ए. सै. जार्ज यकोबाया चर्च और
				266	1 भाग	1/21	सरकारी	शुष्क	104	सड़क
				266	17 भाग	17/29	निजी	शुष्क	393	अलाईमा और अन्य
				277	भाग	1/2	सरकारी	नम	203	केनाल, ईरिगेशन
				278	3 भाग	3/1/23	निजी	शुष्क	1	साजी और श्रीमति मरियम
						3/2/24	निजी	शुष्क	128	एम. सी. बेबी
						3/3/25	निजी	शुष्क	152	श्रीमति मरियम
						3/5/26	निजी	शुष्क	252	मीना
						3/6/27	निजी	शुष्क	19	साजी और श्रीमति मरियम
						3/7/28	निजी	शुष्क	235	जाय
				278	12 भाग	12/1/30	निजी	शुष्क	301	शरली पाथरोज
				278	13 भाग	13/31	निजी	शुष्क	340	वरकी वारीथ पुत्र वारीथ, पेनादथ, कुरुकुटटी पी. ओ.
				278	भाग	18/34	निजी	शुष्क	7	जार्ज और अन्य, कोटाराम वीदु, कोटाराम वीदु और अन्य
						18/2/35	निजी	शुष्क	105	जार्ज
				279	13 भाग	13/24	निजी	शुष्क	219	अनामा वरकी और अन्य
				279	14	14-1	निजी	शुष्क	23	चाको
						14-2	निजी	शुष्क	18	राजु पी. जोसफ
				279	15	15	निजी	शुष्क	20	एल्डो
				279	16 भाग	16/25	निजी	शुष्क	117	केशवन
				279	17	17	निजी	शुष्क	19	वीनु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				281	2 भाग	2-4/20	निजी	शुष्क	101	जोस
				281	3 भाग	3/2/21	निजी	शुष्क	1	अब्राहिम पुत्र वरगीस, कुरीसिहल वीदु अंगदीकदावु, अंगामली पी. ओ.
						3/2/22	निजी	शुष्क	106	अब्राहिम
						3/3/23	निजी	शुष्क	43	जोस और विकार फोरेन चर्च
						3/4/24	निजी	शुष्क	114	कोलिनस
						3/6/25	निजी	शुष्क	179	जोस
						3/7/26	निजी	शुष्क	165	जोस
				281	4 भाग	4/27	निजी	शुष्क	445	जार्ज
				281	9 भाग	9/28	निजी	शुष्क	228	पाली
				281	10 भाग	10/29	निजी	शुष्क	198	विकार से. जोसफस चर्च
				281	11 भाग	11-30	सरकारी	शुष्क	9	सड़क स्थानीय संस्था
				281	14 भाग	14/31	निजी	शुष्क	84	पी. वी. वरगीस
				281	15 भाग	15/32	निजी	शुष्क	130	के. वी. नारायनन
				281	18 भाग	18-34	निजी	शुष्क	7	वरगीस
				282	6 भाग	6-2/27	निजी	शुष्क	67	जेम्स
						6-3	निजी	शुष्क	5	वालसामा
						6-5/28	निजी	शुष्क	170	पी. ए. जाय
				282	9 भाग	9-1/1	निजी	शुष्क	1	वरगीस
				282	16 भाग	16-1/29	निजी	शुष्क	27	वरगीस
						16-2/30	निजी	शुष्क	29	राजीली अब्राहिम
						16-3/31	निजी	शुष्क	22	जार्ज
				282	17 भाग	17-1/32	निजी	शुष्क	75	सचिव, दी मिल्क काओपरेटिव सोसाइटी
						17-2-33	निजी	शुष्क	12	बीना शाजी और श्रीमति अनी जोस
						17-3/34	निजी	शुष्क	13	पी. वी. एंथोनी
				282	19 भाग	19-1/35	निजी	शुष्क	140	पाल
						19-3/36	निजी	शुष्क	40	शाजु
						19-6	निजी	शुष्क	121	टोमी
						19-7/37	निजी	शुष्क	62	टोमी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				282	24	24-2/38	निजी	शुष्क	14	टोमी
				282	25	25-39	निजी	शुष्क	190	टोमी
				282/26	26	26-40	निजी	शुष्क	125	वालसामा

[फा. सं. भारतपत्रा/तक./एलए/एम-ए/1/2003/भाग]

पी. एस. राणा, डप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2006

**S.O. 2167(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.9(E), dated the 3<sup>rd</sup> January, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening), of National Highway No. 47, including construction of bypasses, if any, on the stretch of land from Km. 270.000 to Km. 332.600 (Mannuthy - Aluva Section) in the State of Kerala;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu", dated the 11<sup>th</sup> March, 2006 and in "Mathrubumi" dated the 12<sup>th</sup> March, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, lying within the stretch of land from Km 270.000 to Km 332.600 (Mannuthy - Aluva Section) on the National Highway No.47 in the State of Kerala

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey Number	Sub-division number	New sub-division number	Nature of land	Type of land	Area (in square meters)	Name of land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ernakulam	Aluva	Karukutty	56	1 pt.	1-2/29	Dry	Private	113	Devassykutty
				56	2 pt.	2-1/30	Dry	Private	17	Pappu and others
						2-2/31	Dry	Private	26	Sajeevkumar
						2-9/32	Dry	Private	98	Babu
				56	3 pt.	3/33	Dry	Private	67	Cleatus
				56	5 pt.	5/34	Dry	Private	73	Vicar, Baslahem Church
				56	6 pt.	6/35	Dry	Private	148	Devassy
				56	7 pt.	7-1	Dry	Private	1	P. D. Francis
						7-2/36	Dry	Private	25	P. D. Francis
				56	16 pt.	16/37	Dry	Government	15	Local body road
				56	17 pt.	17-2/38	Dry	Private	57	M. O. Pappu and Naiju
				56	18 pt.	18/39	Dry	Private	60	Antonykutty
				56	19 pt.	19-3/40	Dry	Private	162	Fr. Augustine
						19-4/41	Dry	Private	1	Fr. Augustine
						19-5/42	Dry	Private	6	Rosy Chacko
				56	20 pt.	20/43	Dry	Private	78	P. V. Chacko
				56	22 pt.	22/44	Dry	Private	36	Kochappan @ Devassy
				56	23 pt.	1/45	Dry	Private	1	Devassy
						23-2/46	Dry	Private	38	Sivan
						3/47	Dry	Private	3	Stephen
				56	24	24/24	Dry	Private	19	Pratheesh
				56	26 pt.	1/48	Dry	Private	17	Mariyamkutty, Jose and others Legal heirs of Mariyamkutty Devassy
						2/49	Dry	Private	22	Mariyamkutty, Jose and others Legal heirs of Mariyamkutty Devassy
				56	27 pt.	27/50	Dry	Private	72	Joseph
				59	1	1/12a	Dry	Private	286	P. P. Thomas and others
						1/12b	Dry	Private	29	P. P. Thomas and others
						1/12c	Dry	Private	450	P. P. Thomas
				59	11	59/11	Dry	Private	27	Poulose S/o Lonappan
				64	4	64/4	Dry	Private	262	Lonappan(late) hence Johnson
				64	16	16/43	Dry	Government	225	Sales Tax check post
				64	17	17/44	Dry	Private	453	Mary
				64	19	19-4/45	Dry	Private	15	George
						19-5/46	Dry	Private	64	George
				64	20	20-1/47	Dry	Private	42	Rose mary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						20/2	Dry	Private	88	Joy
						20/3	Dry	Private	3	Joy and others
				64	21	21/48	Dry	Private	170	Jacob
				64	22	22/49	Dry	Private	8	Korath
				64	24	24/51	Dry	Private	374	Elsy, Johnykutty and others
				64	33	33/52	Dry	Government	216	Krishibhavan
				64	34	34/53	Dry	Government	167	Canal and road
				69	3	3/1/27	Dry	Private	732	Mathachan
						3/4/28	Wet	Private	10	Mathachan
				69	13	13-1/29	Wet	Private	177	K. A. Mohammed
				69	14	14/30	Dry	Private	10	Poly, Jacob, Jojy, Jijo.
						14/3	Dry	Private	105	Poly, Jacob, Jojy, Jijo.
						4/31	Dry	Private	39	Poly, Jacob, Jojy, Jijo.
				69	16	16/32	Dry	Government	56	Road, Local Body
				70	1	1/17	Dry	Private	600	Shibu
				70	5pt.	1/18	Dry	Private	531	Poulose
						2/19	Dry	Private	52	Thomas and others.
						5/3	Dry	Private	325	Thomas
				70	6pt.	2/20	Dry	Private	329	Thomas
				70	12pt.	12-2/22	Dry	Private	115	Thomas
				70	14pt.	14-1/23	Dry	Private	53	Stephen
						14-2/24	Dry	Private	68	Thomas
				70	16pt.	16-2/25	Dry	Private	6	Thomas
				73	17pt.	17/20	Dry	Government	27	Local body
				74	12	12-1/16	Dry	Private	11	George
						12-2/17	Dry	Private	24	Poly
						12/3/18	Dry	Private	117	T. A. Purushothaman Nair
						12/4	Dry	Private	202	George
				107	pt.	107/1-2	Dry	Government	88	Road, Local Body
				108	1pt.	1/18	Dry	Private	288	Johnson and Thressiamma
				108	16pt.	16/21	Dry	Private	362	T. O. George
				109	1pt.	1-1/26	Dry	Private	255	Varghese
						1-2/27	Dry	Private	19	Mary Varghese
						1-3/28	Dry	Private	19	1. Varghese 2. Alias 3. Eldo
						1-3/29	Dry	Private	3	1. Varghese 2. Alias 3. Eldo
						1-4/30	Dry	Private	88	1. Varghese 2. Alias 3. Eldo
						1-5/31	Dry	Private	187	1. Varghese 2. Alias 3. Eldo
						1-6	Dry	Private	6	Government, lying as NH
						1-7/32	Dry	Private	103	Torny & Wife Celine
						1-8/33	Dry	Private	34	Varghese

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1-9/34	Dry	Private	33	Eldo
						1-11	Dry	Private	56	Alias
						1-12	Dry	Private	22	Eldo
						1-13/35	Dry	Private	106	George
				109	7pt.	7-1/36	Dry	Private	129	A. S. Bhargavyamma
						7-2/37	Dry	Private	35	Ramachandran Nair
				109	18pt.	18/38	Dry	Government	69	Local body
				109	21pt.	21/39	Dry	Private	136	Johnson and others
				111	1pt.	1/1-32	Dry	Private	270	Vicar, St. Xaviers Church
				111	2pt.	2-1/33	Dry	Private	200	P. J. John, Elikutty John and Alias
						2-1/34	Dry	Private	2	Rosakutty and others
						2-2/35	Dry	Private	16	Elias
				111	3pt.	3-1	Dry	Private	39	Thomas
						3-2	Dry	Private	33	Alias
				111	4	4	Dry	Private	140	1. Raju 2. Joy 3. Rosakutty and others
				111	5pt.	5-36	Dry	Private	14	1. Raju 2. Joy 3. Rosakutty and others
				111	6pt.	6-37	Dry	Private	326	1. Dr. P. P. Jose 2. Smt. Thankamma
				111	14pt.	14/38	Dry	Private	460	Abraham & Mary
				111	15pt.	15/39	Dry	Private	216	Abraham & Mary
				111	27pt.	27/40	Dry	Private	80	Manager, Star Jesus High School
				112	1pt.	1-1/25	Dry	Private	143	Tenny Jose
						1-2/26	Dry	Private	122	Tenny Jose
						1-3/27	Dry	Private	11	1. Varghese 2. David
				112	2pt.	2-3/28	Dry	Private	1	Vicar, St. Xaviers Church
						2-1/36	Dry	Private	3	Vicar, St. Xaviers Church
				112	3pt.	2/3-1	Dry	Private	136	P. J. Joseph
						2/3-3	Wet	Private	122	Jancy
						3-4/29	Wet	Private	165	Jancy
				112	4pt.	2/4-30	Dry	Private	128	Mary chekkappan
				112	5	5/5	Dry	Private	40	Johny
				112	6	6/1	Dry	Private	119	Vicar, St. Xaviers Church and others
						6/2	Dry	Private	71	Sijo Antony
				112	7pt.	7-2/31	Dry	Private	52	Mary John Varghese
						7-3	Dry	Private	26	Veronica Joseph
						7-4/32	Dry	Private	1	K. P. Thomas
				112	18pt.	18/33	Dry	Government	108	Road, PWD
				112	20pt.	20/20	Dry	Private	40	Peter
				112	23	23/34	Dry	Private	143	Abraham
				112	24	24/35	Dry	Private	49	Mary and others.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				113	1pt.	1/16	Dry	Government	43	Road, Local Body
				113	7pt.	7/18	Dry	Government	33	Pathway, Local body
				113	15pt.	15/21	Dry	Private	77	V. C. Jose
				115	1pt.	1-1/16	Dry	Private	35	George Joseph and others
						1-2/11	Dry	Private	209	Sali mary
						1-7/12	Dry	Private	1	George Joseph and others
				115	2pt.	15/2-1	Dry	Private	4	George Joseph and others
						2-2/13	Dry	Private	191	George Joseph
				115	3pt.	3-2/14	Dry	Private	439	1. Sureshababu 2. Thomas 3. Prathapan
				115	4pt.	4-15	Dry	Private	355	John
				117	5pt.	5/1/9	Wet	Private	260	Prayas (Superior) Christ King Monastery
				117	8pt.	1/10	Wet	Private	813	Rosakutty
						2/11	Wet	Private	41	Dr. P. P. Jose
						3/12	Dry	Private	38	1. Joy Joseph 2. Jacob Tharakan
						8/4	Dry	Private	32	1. Joy Joseph 2. Jacob Tharakan
						8/6	Dry	Private	8	Sijo. C. Padayattil
						8/7	Wet	Private	8	Sijo. C. Padayattil
				118	10pt.	10/2	Dry	Private	142	George
						3/12	Dry	Private	39	George
				118	11pt.	1/13	Dry	Private	593	Joly Lonappan
						1/14	Dry	Private	31	Ouseph Devassy and others
						2/15	Dry	Private	153	Jessy Cherlyan
						3/16	Dry	Private	285	Babu Lonappan
						5/17	Dry	Private	62	Annamkutty
						6/18	Dry	Private	63	Sijo. C. Padayattil
						7/19	Dry	Private	60	Rosily
						10/20	Dry	Private	385	Rosily varghese and others
				121	12pt.	1/29	Dry	Private	11	P. P. Varghese and others
						2/30	Dry	Private	49	Jose
						3/31	Dry	Private	48	Poly

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4/32	Dry	Private	48	Mathachan
						5/33	Dry	Private	50	Varghese
						2/6	Dry	Private	87	1. P. L. Polachan 2. P. P. Varghese
						3/34	Dry	Private	365	1. Nimmala and others 2. P. J. John
						14/37	Dry	Government	57	Road, Local Body
						24-44	Dry	Private	53	Varghese
						25-45	Dry	Private	40	Thomas
						5/1/20	Dry	Private	205	K. R. Electricals Pvt Ltd. P. Denny
						1/22	Dry	Private	1	Varghese
						2/23	Dry	Private	130	Abdul Razack and others
						3/24	Dry	Private	114	Varghese
						5/25	Dry	Private	114	Varghese
						3/26	Dry	Private	38	Varghese
						7/27	Dry	Private	114	Varghese
						8/28	Dry	Private	114	Varghese
						9/29	Dry	Private	520	Annam Maveli
						10/30	Dry	Private	387	Poly
						13/31	Wet	Private	572	P. V. Chacko
						1/20	Dry	Private	221	Jim Jose
						2/21	Dry	Private	122	Jim Jose
						7/22	Dry	Private	190	K. P. Varghese and others
						3/23	Dry	Private	221	George Joseph
						10/24	Dry	Private	316	Sulekhha
						1/25	Dry	Private	88	Chackochan
						2/26	Dry	Private	116	Teny Thomas
						4/27	Dry	Private	11	1. Teny Thomas and others 2. P. A. Kesavan 3. P. A. Kunjattu
						13/29	Dry	Private	22	John and others
						15/30	Dry	Private	132	Jose and wife Tereseena
						17-1/31	Dry	Private	83	Jose, Saji, Baiju
						17-2/32	Dry	Private	171	James

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				220	2pt.	1/11	Dry	Private	8	Devassykutty and others
						2/2	Dry	Private	146	P. K. Vijayan
						3/12	Dry	Private	79	Sam
						4/13	Dry	Private	46	Poulose
						5/14	Dry	Private	49	Thomas
						6/15	Dry	Private	90	K. D. Joseph
						7/16	Dry	Private	85	Mathew
						8/17	Dry	Private	59	Devassykutty
				220	3pt.	1/18	Dry	Private	649	Veronica and others
				220	6pt.	3/21	Dry	Private	407	Elsy and others
				220	7pt.	2/22	Dry	Private	172	Poulose
						3/23	Dry	Private	40	Devassykutty
						4/24	Dry	Private	215	Reji
				221	pt.	1/1-2	Wet	Government	436	Canal, and canal road
				222	7pt.	7/1	Dry	Private	14	Thomas and others
						7/2/22	Dry	Private	160	Benny, Jose and Martin
				222	8pt.	8/1/23	Dry	Private	3	Sijo Thomas
						8/2/24	Dry	Private	224	Benny
						8/4/25	Dry	Private	233	Paul Thomas
						8/5/26	Dry	Private	350	Sijo Thomas
				222	9pt.	9/1/27	Dry	Private	98	M. V. Poulose
						9/2/28	Dry	Private	185	M. V. Jose
						9/3/29	Dry	Private	31	M. V. Poulose
				226	4pt.	4/2/17	Dry	Private	80	Joshy
						4/3/18	Dry	Private	39	Rajamma
						4/4/19	Dry	Private	68	M. K. Gopi
						4/5/20	Dry	Private	78	M. K. Babu
				226	5pt.	6/5/21	Wet	Government	198	Canal, Irrigation
				226	8pt.	6/8/22	Dry	Private	6	Joshy and others
						8/2/23	Dry	Private	370	Joshy
						8/13/24	Dry	Private	258	Ani Joseph and others
				240	1pt.	1-1/11	Dry	Private	154	Chellappan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1-2/12	Dry	Private	45	Helen
						1-3/13	Dry	Private	52	Mercy
						1-4/14	Dry	Private	238	Reji John
						1-6	Dry	Private	230	John
						1-7/15	Dry	Private	40	John
						1-8	Dry	Private	176	John
						1-9/16	Dry	Private	89	Paily
						1-10	Dry	Private	250	K. J. Varghese
						1-11/17	Dry	Private	165	John
						1-12/18	Dry	Private	122	Chellappan
						1-13/19	Dry	Private	44	John
						1-15/20	Dry	Private	114	Shibu
3				240	6	6-2/21	Dry	Private	23	C. P. James
						6-4/22	Dry	Private	1	1. C. P. James 2. Joy
						6-5/23	Dry	Private	70	Stephen
						6-6/24	Dry	Private	33	Prem Stephen
				240	7pt.	7-1	Dry	Private	11	T. A. Kareem
						7-2/25	Dry	Private	400	T. A. Kareem
				240	8	8-26	Dry	Private	150	Divya and Shanoi
				240	9pt.	9-2	Dry	Private	56	C. P. James
						9-3	Dry	Private	131	Stephen and others
						9-4/27	Dry	Private	174	Prem Stephen
						9-5/28	Dry	Private	55	Prem Stephen
						9-6/29	Dry	Private	112	Thomas Stephen
				240	10pt.	10-30	Dry	Private	23	Divya and Shanoi
				241	1	1/1/2001	Dry	Private	23	Saimon
						1/1-2	Dry	Private	23	Johnson
						1/1-3	Dry	Private	22	Alias
				241	2	1/2-15	Dry	Private	87	Varghese
				241	3pt.	3-1/16	Dry	Private	3	Mary
						3-1/17	Dry	Private	336	Mary
						3-2/18	Dry	Private	1	Varghese

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3-3	Dry	Private	7	Johnson
						3-4/19	Dry	Private	6	Alias
						3-5/20	Dry	Private	5	Salmon
				241	13	13-1/21	Dry	Private	6	Varkey
						13-2	Dry	Private	99	Varkey
				249	pt.	1-2	Dry	Government	219	Canal
				250	1pt.	1-21	Dry	Private	70	Thomas and wife Thresia
				250	2pt.	2-22	Dry	Private	260	Valsa Jacob
				250	3pt.	3-23	Dry	Private	306	V. A. Prabhakaran
				250	4pt.	4-24	Dry	Private	118	Naithi and others
						4-25	Dry	Private	100	Naithi and others
				250	11pt.	1-26	Dry	Private	10	Joy
						2-27	Dry	Private	140	Joy
						3-28	Dry	Private	138	Baby
				250	12pt.	12-29	Dry	Private	474	1. Joseph and others 2. Polson
				250	14pt.	14-30	Dry	Private	445	P. V. Cherlyan
				250	15pt.	15-31	Dry	Government	49	Road, Local body
				250	17pt.	17-32	Dry	Private	127	P. P. Varkey
				250	19pt.	19-33	Dry	Private	65	P. P. Varkey
				250	20pt.	20-34	Dry	Private	273	M. A. Varghese and others
				257	3pt.	3-17	Dry	Private	565	Itteera Kurlacko
				259	3pt.	1	Dry	Private	34	Reena Varghese
						2/21	Dry	Private	130	Reena Varghese
				259	10pt.	25	Dry	Private	111	Varkey and others
				259	15pt.	15-28	Dry	Private	165	Alias Paul
				259	16pt.	29	Dry	Private	213	Victoria @ Rosy
				259	17pt.	30	Dry	Private	152	Bruno
				259	19	19-31	Dry	Private	136	Vicar, St. George Yakkobaya Church and others
				260	1pt.	280/1/14	Dry	Private	214	Vicar, St. George Yakkobaya Church and others
				266	1pt.	21	Dry	Government	104	Road

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				266	17pt.	29	Dry	Private	393	Aliamma and others
				277	pt.	1/2	Wet	Government	203	Canal, Irrigation
				278	3pt.	1/23	Dry	Private	1	Saji and Smt. Mariyam
						2/24	Dry	Private	128	M. C. Baby
						3/25	Dry	Private	152	Smt. Mariyam
						5/26	Dry	Private	252	Meena
						6/27	Dry	Private	19	Saji and Smt. Mariyam
						7/28	Dry	Private	235	Joy
				278	12pt.	1/30	Dry	Private	301	Sherly Pathrose
				278	13pt.	31	Dry	Private	340	Varkey Vareeth S/o Vareeth, Painadath, Karukutty, P.O.
				278	18pt.	34	Dry	Private	7	George and others, Kottaram veedu, and others
						2/35	Dry	Private	105	George
				279	13pt.	24	Dry	Private	219	Annamma Varkey and others
				279	14	14-1	Dry	Private	23	Chakku
						14-2	Dry	Private	18	Raju. P. Joseph
				279	15	15	Dry	Private	20	Eldo
				279	16pt.	25	Dry	Private	117	Kesavan
				279	17	17	Dry	Private	19	Venu
				281	2pt.	2-4/20	Dry	Private	101	Jose
				281	3pt.	2/21	Dry	Private	1	Abraham S/o Varghese, Kurisingal veedu, Angadikkadavu, Angamali, P.O.
						2/22	Dry	Private	106	Abraham
						3/23	Dry	Private	43	Jose and Vicar, Forane Church
						4/24	Dry	Private	114	Colins
						6/25	Dry	Private	179	Jose
						7/26	Dry	Private	165	Jose
				281	4pt.	4/27	Dry	Private	445	George
				281	9pt.	28	Dry	Private	228	Paily
				281	10pt.	29	Dry	Private	198	Vicar, St. Joseph's Church

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				281 11pt.		11-30	Dry	Government	9	Road, Local Body
				281 14pt.		31	Dry	Private	84	P. V. Varghese
				281 15pt.		32	Dry	Private	130	K. V. Narayanan
				281 18pt.		18-34	Dry	Private	7	Varghese
				282 6pt.		6-2/27	Dry	Private	67	James
						6-3	Dry	Private	5	Valsamma
						6-5/28	Dry	Private	170	P. I Joy
				282 9pt.		9-1/1	Dry	Private	1	Varghese
				282 16pt.		16-1/29	Dry	Private	27	Varghese
						16-2/30	Dry	Private	29	Rosily Abraham
						16-3/31	Dry	Private	22	George
				282 17pt.		17-1/32	Dry	Private	75	Secretary, The Milk Co-operative Society
						17-2/33	Dry	Private	12	Beena Shaji and Smt. Ani Jose
						17-3/34	Dry	Private	13	P. V. Antony
				282 19pt.		19-1/35	Dry	Private	140	Paul
						19-3/36	Dry	Private	40	Shaju
						19-6	Dry	Private	121	Tomy
						19-7/37	Dry	Private	52	Tomy
				282 24		24-2/38	Dry	Private	14	Tomy
				282 25		25-39	Dry	Private	190	Tomy
				282 26		26-40	Dry	Private	125	Valsamma

[F. No. NHA/Tech/LA/M-A/1/2003/Part]  
P. S. RANA, Dy. Secy.